

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

अमृतवेला

६३ जन्मगँवाया और समर्थ बननेका यह एक जन्म है। तो इस समयको व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना! अमृतवेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो लेकिन बीच-बीचमें चेक करो, बार-बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जायेगा। इसलिए बापदादा ने बीच-बीचमें ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिनमें बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाय लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधेघण्टे के बाद करो लेकिन कर तौ सकते हो। घड़ी के आधारपर भी क्यों चलो। अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी।

You have wasted 63 births and you have this one birth to become powerful. So, you shouldn't waste this birth, should you? Check your timetable from Amrit vela till night time. It should not be that you check your chart only at night, but you also have to check it every now and again. By checking it again and again, you will be able to change yourself. If you only check yourself at night, then what was wasted will only be accumulated in the account of waste. This is why, BapDada has fixed the time for traffic control in between. Do you have traffic control or do you remain busy? Your discipline should be fixed. You may change your timings slightly, but if you are paying attention, then you will be able to accumulate. If you do not have time at that moment, then you can have remembrance half an hour later, but you can still have remembrance, can you not? **Why should you move along dependent on a watch?** Your intellect is the watch, so remember the clock of the divine intellect. Once you have developed a habit of something, that habit will become such that it will pull you against your conscious wish. Since bad habits don't leave you alone, they attract you towards themselves, then why can't you make good sanskars your own? So always check and change yourself and you will continue to earn an income for all time.





ध्यान का अर्थ है
भीतर से मुस्कुराना
और सेवा का अर्थ है,
इस मुस्कुराहट को
औरों तक पहुँचाना।



Brahma Kumaris
Daily Vichar





आज का विचार

तजुर्बे उम्र से नहीं
बल्कि हालातों से होते हैं
अच्छा वक़्त उसी का हैं जो
किसी का बुरा नहीं
सोचते हैं।



Brahma Kumaris
Daily Vichar





जहाँ परमात्मा-टचिंग है, वहाँ प्योर
टचिंग है, मिक्सचर व निगेटिव
थिंकिंग असम्भव है,,,,,,

निगेटिव थिंकिंग आना तो दूर टच
भी नहीं कर सकती,,,,,

शुक्रिया बाबा शुक्रिया



पिताश्री-ब्रह्मा बाबा

जब दिल से कहते हो
"मेरा बाबा"

तो बाबा भी कहते

बच्चे सब कुछ तेरा

जिसने दिल से कहा

मेरा बाबा, तो बाप ने

अपना बना लिया,

यह दिल का सौदा है

Om Shanti

**मकर संक्रान्ति
की शुभकामनाएं**

HAPPY

MAKAR SANKRANTI



Join Brahma Kumaris

Let us act as instruments for world change
through self-transformation



कोई भी आदत या संस्कार बदलना है,
कभी नहीं कहना 'यह मुश्किल है',
मन और बुद्धि इस बात को सत्य मानकर
स्वीकार करते हैं और उसे सिद्ध करते हैं।
सोच बदलें- 'मैंने कई आदतें बदली हैं,
यह आदत भी जरूर बदलेगी,
आदत बदलना सब से आसान है'
मन स्वीकार करेगा और सिद्ध करेगा।





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org